

सकना या चाहना

क। पोलिश अनुवाद पढ़कर दिए हुए शब्दों से वाक्य बनाएँ। Proszę ułożyć zdania zgodne z polskim tłumaczeniem.

१. Mama mojego przyjaciela nie umie jeździć na rowerze.

मेरे साइकिल चला दोस्त माँ नहीं की सकती।

→

२. Dlaczego nie chcesz zjeść samos?

नहीं समोसे तुम खाना क्यों चाहते?

→

३. Dzieci, nie możecie wspinać się na drzewa!

चढ़ पर तुम बच्चो, नहीं पेड़ों सकते!

→

४. Dokąd chcą państwo pojechać na wakacje?

छुट्टी आप जाना किधर के लिए चाहेंगे?

→

५. Nie chcę się uczyć chińskiego!

नहीं भाषा मैं पढ़ना चीनी चाहती!

→

६. Czy może mnie pan tu wysadzić?

सकते आप यहाँ मुझे क्या उतार हैं?

→

ख। वाक्य सुनकर सही क्रिया चुनें। वाक्यों का अनुवाद करें। Proszę wysłuchać zdań i zaznaczyć właściwy czasownik, a następnie przetłumaczyć całość.

१. मैं भारतीय खाना नहीं बना सकती / चाहती हूँ।

२. बेटा, तुम किस तरह के कपड़े पहनना सकती / चाहती हो?!

3. क्या आप हमारे साथ सिनेमा जाना चाहेंगी / सकेंगी?

4. मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर चाहता / सकता!

5. आप इस दुकान से क्या-क्या खरीदना चाहते / सकते हैं?

6. हमारे बच्चे इस कार्टून को नहीं देख चाहते / सकते।

ग। तस्वीर को देखकर सही वाक्य चुनें। Proszę wybrać właściwe zdanie opisujące obrazek.

	अध्यापक कोई जवाब सुनना चाहते हैं। अध्यापक कुछ बोलना चाहते हैं।
	लड़की माता के साथ आलू छीलना चाहती है। लड़की माता के साथ केक बनाना चाहती है।
	लड़का कुछ नहीं समझ सकता। लड़का कुछ नहीं खा सकता।
	महिला गाना गाना चाहती है। महिला यात्रा करना चाहती है।
	औरत नहा सकती है। औरत तैर सकती है।
	आदमी अखबार पढ़ना चाहता है। आदमी किताब पढ़ना चाहता है।